

पाठ-17 वीर बालक

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

(क) कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है?

उ० कविता में कवि ने मुसीबतों में भी न झुकने का संदेश दिया है।

(ख) कविता का क्या नाम है?

उ० कविता का नाम 'वीर बालक' है।

(ग) कविता में किस महासागर का जिक्र हुआ है?

उ० कविता में हिंद महासागर का जिक्र हुआ है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

(क) कभी भारत वासियों को प्रभात की किरण क्यों कह रहा है?

उ० कभी भारत वासियों को प्रभात की किरण कह रहा है क्योंकि वे हमेशा प्रकाश की भांति धैर्यता, वीरता, गंभीरता और अग्नि के समान तपने की क्षमता है।

(ख) अच्छे संस्कार कैसे आते हैं? बच्चों में उन्हें कौन पैदा करता है?

उ० अच्छे संस्कार माँ से आते हैं अतः यह संस्कार बच्चों में माँ ही पैदा करती है।

(ग) भारत के रखवाले को किन गुणों से युक्त होना चाहिए?

उ० भारत के रखवालों को धीर, गंभीर, वीर और अडिग गुणों से युक्त होना चाहिए।

(घ) शिवाजी राणा प्रताप की कौन-सी विशेषता कवि ने बताई है?

उ० शिवाजी राणा प्रताप ने संघर्ष के समय में घास की रोटियां खाई और जमीन पर भी सोए लेकिन दुश्मन के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाया।

(ङ) संपूर्ण कविता का सार लिखिए।

उ० 'वीर बालक' कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वर्णन किया है कि किस प्रकार विपत्ति में राणा प्रताप और शिवाजी जैसे वीर पुरुषों ने साहस से काम लिया और कभी हिम्मत नहीं हारी। अर्थात् वीर पुरुष लगातार कोशिश करते रहते हैं। वीर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना डटकर करते हैं। वह कायरों की भांति विपत्ति से पीछे नहीं हटते वह अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। कवि कहते हैं कि विपत्ति का सामना करो तभी तुम उनको हरा पाओगे क्योंकि बिना खुद जले कभी उजाला नहीं किया जा सकता।

पाठ- 18

काजीरंगा

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

(क) चिंकी कहाँ घूमने गई थी?

उ० चिंकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घूमने गई थी।

(ख) अलिशा के पापा ने उसको क्या लाकर दिया और क्यों?

उ० अलिशा के पापा ने उसको कंप्यूटर लाकर दिया क्योंकि वह अपनी कक्षा में प्रथम आई थी।

(ग) चिंकी ने कहा कि तस्वीरें अलिशा को ई-मेल की।

उ० चिंकी ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीरें अलिशा को ई-मेल की।

(घ) काजीरंगा अभ्यारण को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम कब दिया गया?

उ० काजीरंगा अभ्यारण को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम 11 फरवरी 1974 को दिया गया।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

(क) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लोग क्या देखने आते हैं और उन्हें कैसे घुमाया जाता है?

उ० देश-विदेश से लोग यहाँ की हरियाली और जानवरों को देखने के लिए आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने आए लोगों को हाथी या जीप पर बैठा कर सभी जगह घुमाया जाता है।

(ख) अलिशा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए क्यों उत्सुक हो जाती है?

उ० अलिशा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीरों को देखकर और वहाँ के बारे में जानकारी पाकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ जाने के लिए उत्सुक हो जाती है।

(ग) चिंकी ने अलिशा को गेंडे के बारे में क्या बताया?

उ० चिंकी ने अलीशा को बताया कि गेंडे की चमड़ी बहुत सख्त होती है जब इसको गुस्सा आता है तो बड़े से बड़े जानवरों को भी पटक देता है इसका शरीर बहुत भारी होता है।

ऐसा क्यों कहा गया-----

(क) जो पशु- पक्षी गायब व नष्ट हो रहे हैं, वह ऐसे सुरक्षित वनों के कारण फिर से पनपने लगेंगे।

उ० जो पशु -पक्षी गायब हो व नष्ट हो रहे हैं वे ऐसे सुरक्षित वनों के कारण फिर से पनपने लगेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा खुशहाल प्राकृतिक वातावरण मिलेगा तो उनका जीवनकाल आगे बढ़ेगा।

(ख) काजीरंगा में बहने वाली नदियाँ एवं झीलें दूसरे राष्ट्रीय उद्यान से अलग रूप प्रदान करती हैं।

उ० काजीरंगा में बहने वाली नदियाँ एवं झीलें दूसरे राष्ट्रीय उद्यान से अलग रूप प्रदान करती हैं क्योंकि वहाँ की झीलों में तैरते दरियाई घोड़ों का नजारा देखने ही बनता है।

पाठ -17

नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

(अ) हम-----देते हैं।

(क) वीर बालक स्वयं को किसका पहरी बताता है?

उ० वीर बालक स्वयं को ऊंचे हिमालय का पहरी बताता है।

(ख) शांति दूत बनने से क्या आशय है?

उ० शांति दूत बनने का आशय है सभी को छॉह अर्थात् शरण प्रदान करना।

(ग) सभी को छॉह किस प्रकार मिल सकती है?

उ० सभी को छॉह धरती पर शांति फैलाकर मिल सकती है।

(घ) निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए -पहरी, हिमाद्री, धरणी, सुरभि।

उ० पहरी- रखवाले, हिमाद्री -हिमालय, धरणी- धरती, सुरभि -खुशबू।

(ब) वीर प्रसू-----रखवाले हैं।

(क) हम किस माँ की संतान हैं?

उ० हम भारत माँ की संतान हैं।

(ख) हम माँ के प्रति अपने कर्तव्य को कैसा पूरा कर सकते हैं?

उ० हम माँ के प्रति अपने कर्तव्य को अच्छे कर्मों अर्थात् धरती पर शांति फैला कर पूरा कर सकते हैं।

(ग) इस कविता के रचयिता कौन हैं? और कविता के माध्यम से भी क्या संदेश दे रहे हैं?

उ० इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं वे कविता के माध्यम से धीर, वीर एवं संयमी बनने का संदेश दे रहे हैं।

(घ) गंगा, यमुना, हिंद महासागर क्या हैं? उनकी रक्षा में किस प्रकार करनी है?

उ० गंगा, यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं जबकि हिंद महासागर एक समुंद्र है उनकी रक्षा हमेशा साहस और सजगता के साथ करनी होगी।